

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2025—चैत्र 7, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. ई-1-03-2025-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-01-2025-AIS-I (S.II & III), दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे (MP:2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को श्री योगेश कुमार मीना, भाप्रसे (MH:2024) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग स्थानांतरित किया गया है.

(2) राज्य शासन, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे (MP:2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

1989

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. एफ 1(ए) 11-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, (पी. आर. टी. एस.), इन्दौर का दिनांक 5 से 11 मार्च 2025 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, (पी. आर. टी. एस.), इन्दौर का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर चंद्रावत, रापुसे, पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पी. आर. टी. एस., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक (पी. आर. टी. एस.), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 1(ए) 14-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 20 से 28 मार्च 2025 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-31 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)-09-2022-ब-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जून 2024 को संशोधित करते हुए, उसके स्थान पर श्री शियाज के. एम., भापुसे, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, शहर पूर्व वर्तमान में सेनानी, हॉकफोर्स, बालाघाट को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 28 जून 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत अर्लाकुलम (केरल) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------|
| 1. | श्री शियाज के. एम. | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती शहराजदा टी., | — | पत्नी |
| 3. | श्री इरफान खलील | — | पुत्र |
| 4. | श्री रायान फैज, | — | पुत्र |

(2) अवकाशकाल में श्री शियाज के. एम. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शियाज के. एम. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. आर. 2537625-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), भोपाल को दिनांक 26 से 6 जून 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 मई व 7-8 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित इंग्लैण्ड एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती बिट्टू शर्मा, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक (रेल्वे), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

क्र. एफ 1(ए) 123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस, महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग, इन्दौर को दिनांक 10 से 28 फरवरी 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 8-9 फरवरी व 1-2 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप-पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग, इन्दौर का चालू कार्य श्री संजीव कुमार कंचन सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस, महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

संशोधित आदेश

क्र. 3441-1006-इक्कीस-अ(स्था.) 2025.—विभागीय आदेश क्र. 4286-650-21-अ(स्था.)-गोप.-दिनांक 6 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारियों का आदेश जारी किया गया था. विभाग के आदेश क्र. 2698, 2733, 2735, 2734, 2738-इक्कीस-अ(स्था.)-गोप., दिनांक 27 फरवरी 2025 को पदोन्नति होने से केवल नवीन पद अनुरूप संशोधित आदेश जारी किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा :—

| क्र. | नाम एवं पूर्व पदनाम | नवीन पदनाम | यूनिक कोड | स्थान एवं डी.डी.ओ. कोड नं. | सेवानिवृत्ति दिनांक | सा.भ.नि./ डी.पी.एफ. क्र. | शासकीय आवास |
|------|--|----------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल. | अवर सचिव | 051010885 | भोपाल 0512101001 | 28-02-2025 | एस.जी.एस. 2639 | आवंटित नहीं है |
| 2. | अरूण अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल. | अनुभाग अधिकारी | 051010910 | भोपाल 0512101001 | 30-04-2025 | एस.जी.एस. 2700 | जी 86/8, तुलसी नगर (1250), भोपाल. |
| 3. | श्री अजय प्रकाश बिल्लौरे, सहायक अनुभाग अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल. | अनुभाग अधिकारी | 051010897 | भोपाल 0512101001 | 31-08-2025 | एस.जी.एस. 2635 | जी 6/3 न्यू नर्मदा भवन, सेकेण्ड स्टॉप, भोपाल. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---|----------------|-----------|----------------------|------------|-------------------|---|
| 4. | श्रीमती साधना वर्मा, निज सहायक, विधि विभाग, भोपाल. | निज सचिव | 051010845 | भोपाल 0512101001 | 30-06-2025 | एस.जी.एस. 2242 | जी-11, 141, न्यू 228 क्वार्टर, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल. |
| 5. | श्री अब्दुल गफूर सिद्धीकी, निज सहायक, विधि विभाग, भोपाल. | निज सचिव | 051010890 | भोपाल 0512101001 | 31-07-2025 | एस.जी.एस. 2707 | एफ. टी. 9/202, महालक्ष्मी परिसर, पुल बोगदा रोड, जहांगीराबाद, भोपाल. |
| 6. | श्री वासुदेव दामले, निज सहायक, महा. कार्या. जबलपुर. | निज सचिव | 180006193 | जबलपुर 1802101003 | 30-06-2025 | ए.जे./ 12014 | आवंटित नहीं है. |
| 7. | श्री नासिर खान, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग, भोपाल. | अनुभाग अधिकारी | 051010917 | भोपाल 0512101001 | 31-05-2025 | एस.जी.एस. 2780 | आवंटित नहीं है. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

संशोधित अधिसूचना

क्र. 498-2651338-2025-पचास-2.—बाल कल्याण समिति के अशासकीय सदस्यों के चयन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025 से जारी बाल कल्याण समिति के लिए जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 253-2651263-2025-पचास-2 के सरल क्रमांक (4) में मुरैना एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक 255-2551338-2025-पचास-2 के सरल क्रमांक (13) में उमरिया जिले की बाल कल्याण समिति हेतु 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य के पद पर चयनित व्यक्तियों के नाम की सूची प्रकाशित की गई है परंतु जिला मुरैना एवं उमरिया में एक-एक पद पूर्व से भरे होने तथा इन पदों पर कार्यरत सदस्यों का कार्यकाल 23 अगस्त 2026 तक होने के कारण मुरैना जिले की वर्तमान चयन सूची के सरल क्रमांक (4) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक (5) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री गिर्राज शर्मा एवं उमरिया जिले की चयन सूची के सरल क्रमांक (13) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक (5) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री राहुल कुमार गौतम का नाम विलोपित किया जाता है.

इसी तरह जिला झाबुआ की बाल कल्याण समिति में पदस्थ एक सदस्य का कार्यकाल 29 मई 2025 तक होने के कारण अधिसूचना क्रमांक 255-2651338-2025-पचास-2 के सरल क्रमांक (11) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका में बाल कल्याण समिति झाबुआ में चयनित सदस्य श्री सुरेन्द्र भूरिया का कार्यकाल 30 मई 2025 से प्रारंभ माना जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0207/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - बैतूल

तहसील - शाहपुर

वनमंडल - उत्तर बैतूल (सा.)

वन परिक्षेत्र - शाहपुर (सा.)

| अ. क्र. | प्रस्तावित वनखंड का नाम | वनखंड की भूमि का विवरण | | | | वनखंड की सीमाएं |
|---------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|--|
| | | ग्राम का नाम | भूमि का वर्तमान मद् | खसरा क्र. | क्षेत्रफल (हे.मै) | |
| 1 | चापड़ा रैयत | चापड़ा रैयत | छोटे झाड़ का जंगल | 17/1/3 | 3.974 | उत्तर :- आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 2/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण :- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 4 से आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम :- आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 से मुनारा क्रमांक 2/1 तक की वनसीमा। |
| योग | | | | | 3.974 | |

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1 - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6-MPB029/2022-BHO दिनांक 26.06.2023 से जारी सैद्धान्तिक सहमति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-2 अनुसार घोघरी सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 1.987 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त 3.974 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.974 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक / 055/अ-20(3) /2021-22/ दिनांक 15.12.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2 - अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाहपुर के प्रमाण-पत्र के आधार पर

आमलेखित अधिकारी का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-**1- व्यक्तिगत अधिकार -** उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।**2- सामूदायिक अधिकार -** उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकार नहीं है।

उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0207-2024-FLR-PCCF.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0207-2024-FLR-PCCF, दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.Bhopal, the 20th March 2025

No./PCCF/7/0207/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE**District - Betul****Tahsil Shahpur****Forest Division - North (T) Betul****Forest Range - Sarni**

| S.N. | Name of Proposed Forest Block | Details of Land Included | | | | Forest Block Boundaries |
|------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | | Name of Village | Present head of land | Khasra No. | Area (Hec.) | |
| 1 | Chapada Raiyat | Chapada Raiyat | Chhote Jhad ka Jungal | 17/1/3 | 3.974 | North- Artificial forest boundary from Pillar No. 2/1 of reserved forest block "10 Chapra" to Pillar No. 1 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat. East- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|
| | | | | | | South- Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat to Pillar No. 3 / 1 of reserved forest block "10 Chapra". West- Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to Pillar No. 2/1 of reserved forest block "10 Chapra". |
| | | | | | Total | 3.974 |

(A) Reasons for publication of Notification:-

1. In According to the condition no. 2 imposed in the in-principle consent issued by the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change,

Bhopal, in the letter no. 6-MPB029/2022-BHO date 26.06.2023, 1.987 hectares are affected in the case of diversion of forest land for the Ghoghri Irrigation Project (pipe line) and in lieu of diverted forest land received 3.974 hectares revenue forest land out of the revenue forest land mentioned above for the purpose of compensatory afforestation, by order number/55/a -20(3)/2021-22 dated 15.12.2021 of Collector Betul was transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Government, Forest Department.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Shahpur are as under:-

1- **Individual Rights** - There are no Individual rights on the said land.

2- **Community Rights** - There are no Community rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक -16 सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - खरगोन

तहसील - बडवाह

वनमण्डल - बडवाह (सामान्य)

वन परिक्षेत्र - बलवाडा

| अ.क्र. | वनखण्ड की भूमि का विवरण | | | | | वनखण्ड की सीमाएं |
|--------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|---|
| | प्रस्तावित वनखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | भूमि का वर्तमान मद् | खसरा क्र. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | |
| 1 | मनिहार | राजस्व ग्राम मनिहार | निश्चित चारागाह | 50/1 | 12.506 | उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 18 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्र. 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 24 होते हुये 03 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
| योग | | | | | 12.506 | |

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC 006/2016-BHO/416 दिनांक 27.04.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना से प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम मनिहार, तहसील बडवाह, खसरा क्रमांक 50/1 रकबा 12.506 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पंक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1413/वाचक-2/2015 खरगोन दिनांक 07.10.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के प्रतिवेदन क्रमांक/1413/वाचक-2/2015 दिनांक 07.10.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. PCCF-7-0259-2024-FLR-PCCF-Part (2) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. PCCF-7-0259-2024-FLR-PCCF-Part (2), दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2025

No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare, under provisions of Chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

//SCHEDULE//

District - Khargone
Forest Division - Barwaha

Tehsil - Barwaha
Forest Range - Balwada

| S. N. | Name of Proposed Forest Block | Details of Land included | | | | Forest Block Boundaries |
|-------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------------|---|
| | | Name of Village | Present head of land | Khasra No. | Area (Hectare) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Manihar | Revenue village Manihar | Govt. Charagah Land | 50/1 | 12.506 | North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 13 of Proposed Protected Forest Block. East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to Pillar No. 18 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to Pillar No. 22 of Proposed Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 03 via 24 of Proposed Protected Forest Block. |
| Total | | | | | 12.506 | |

(A) Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 006/2016-BHO/416 dated 27/04/2016, in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa-Gambhir Link Pariyojna, the above mentioned non- forest land of area 12.506 hectares in Khasra Number 50/1 was transferred/mutated in favour of Forest Department, M.P. Government by Collector Khargone through order no./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for use purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasra-wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

(1) Individual Rights :- There is no Personal Right on the said land.

(2) Community Rights :- There is no Community Right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 1019-वि.यो.-मंदसौर-उपांतरण-नगानि-2025

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

मंदसौर विकास योजना, 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला मंदसौर, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, मंदसौर म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.

"अनुसूची"

मंदसौर विकास योजना, 2011 के अध्याय-6 की कड़िका 6.16 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारणी 6-सा-14 के सरल क्रमांक-4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के प्रस्तावित उपयोग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकाने, क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर/डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग-ध्यान-आध्यात्मिक केन्द्र, इंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्था/अर्द्धशासकीय/शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**।

व्याख्या : -

- (1) * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
- (2) ** गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

टीप:- उपरोक्त (1) एवं (2) के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र. 1066-वि.यो.-देवास-उपांतरण-नगानि-2025

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

देवास विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला देवास, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास म.प्र.

“अनुसूची”

देवास विकास योजना, 2031 के अध्याय-4 की कंडिका 4.8.5.1 मिनी सुपर कॉरिडोर के अभिन्यास हेतु नियमन के बिन्दु क्रमांक-(अ) एवं (ब) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

(अ) भूखण्ड का आकार

1. भूखण्ड का आकार- सुपर कॉरिडोर से संलग्न न्यूनतम आकार सार्वजनिक खुला क्षेत्र-2000 वर्गमीटर।
2. भवन की ऊँचाई-30.0 मीटर।
3. सार्वजनिक खुला क्षेत्र-10 प्रतिशत
4. भूखण्ड के अग्र भाग की न्यूनतम चौड़ाई-30 मीटर।
5. सेवा-सुविधाओं के लिये क्षेत्र-संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार।
6. आंतरिक मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर।

(ब) विकसित भूखण्ड हेतु नियमन

1. अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्र-30 प्रतिशत

2. सीमान्त खुला क्षेत्र

- अग्र भाग-न्यूनतम 12 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का आधा जो भी अधिक हो।
- दायें/बायें ओर न्यूनतम 7.50 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो।
- पृष्ठ भाग-न्यूनतम 7.50 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो।
- फर्शी क्षेत्र अनुपात-2.0 अधिकतम।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयवधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2025

मौजा गड़पहरा रैयतवारी, पट. ह. नं. 41, तहसील सागर ग्रामीण

क्र.-0010-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-1862.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | कार्यकारी निदेशक, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सागर. |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर 2. राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर 4. सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर |
| (4) | भूमि का विवरण.— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | सागर ग्रामीण |
| | (ग) ग्राम / नगर | गड़पहरा मुहाल |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 77.99 हे. |
| | (ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र | 77.99 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 77.99 हे. |
| (7) | क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा गड़पहरा मुहाल, पट. ह. नं. 41, तहसील सागर ग्रामीण

क्र.-0009-अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-1863.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :—

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम | कार्यकारी निदेशक, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सागर. |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन | दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना हेतु |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण. | 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर 2. राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर 4. सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर |
| (4) | भूमि का विवरण.— | |
| | (क) जिला | सागर |
| | (ख) तहसील | सागर ग्रामीण |
| | (ग) ग्राम / नगर | गड़पहरा मुहाल |
| | (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र | 39.91 हे. |
| | (ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र | 39.91 हे. |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण | दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र | 39.91 हे. |
| (7) | क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की सहमति अपेक्षित है. | नहीं |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख. | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर |

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 249-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | नईगढ़ी | भदावल | 0.100 | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म. प्र.). | पी. एच.2, पहुँच मार्ग निर्माण हेतु. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 252-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-----------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | मनगवां | इटहा | 0.200 | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म. प्र.). | पी. एच.2, पहुँच मार्ग निर्माण हेतु. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 1703-भू-अर्जन-2025

राजगढ़, दिनांक 14 फरवरी 2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-कचनारिया

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) | |
|--------|--|---|---------------|
| | | कुल रकबा | प्रभावित रकबा |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-कचनारिया की भूमि की आवश्यकता। | 1.012 | 0.200 |
| | कुल योग :- | 1.012 | 0.200 |

-: अनुसूची (2) :-

| स.क्र. | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का रकबा (हे.में) | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) |
|--------|--|------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ब्रजलाल, अरविन्द, पप्पू दीपचंद, राजेश पिता गंगाराम, धुरियाबाई बैवा गंगाराम, हिमांशु, सुधांशु पिता मुन्नालाल, निर्मलादेवी बैवा मुन्नालाल जाति खटीक पता नि.ग्रा. ब्यावरा | 1291/1 | 1.012 | 0.200 |
| | योग:- | 1 | 1.012 | 0.200 |

क्र. 1704-भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव,
ग्राम-लसुडलीमहाराजा

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे) | |
|------------|---|--|---------------|
| | | कुल रकबा | प्रभावित रकबा |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-लसुडलीमहाराजा की भूमि की | 1.274 | 0.183 |
| कुल योग :- | | 1.274 | 0.183 |

-: अनुसूची (2) :-

| स.क्र. | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का रकबा (हे.मे) | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे) |
|----------|--|------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुमित्राबाई पति केदार 1/2, गोपाल पिता केदार 1/2 जाति दांगी पता ब्यावरा | 562/1/1 | 1.120 | 0.150 |
| 2 | कैलाश पिता बापूलाल 1/4, जगदीश पिता बापूलाल 1/4, रामचरण पिता बापूलाल 1/4, अनारबाई वैवा बापूलाल 1/4 जाति दांगी पता ब्यावरा | 543/1/1 | 0.154 | 0.033 |
| कुलयोग:- | | कुलकिता-2 | 1.274 | 0.183 |

क्र. 1705-भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-पगारी

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे) | |
|------------|---|--|---------------|
| | | कुल रकबा | प्रभावित रकबा |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-पगारी की भूमि की आवश्यकता। | 0.100 | 0.080 |
| कुल योग :- | | 0.100 | 0.080 |

-: अनुसूची (2) :-

| स.क्र. | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का रकबा (हे.मे) | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे) |
|--------|---|------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी पता ब्यावरा | 155/1/1/3 | 0.100 | 0.080 |
| कुल:- | | किता-1 | 0.100 | 0.080 |

क्र. 2656-भू-अर्जन-2025

राजगढ़, दिनांक 11 मार्च 2025

क्रमांक/01/34-24 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/34-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

| ग्राम गीलाखेडी | तहसील नरसिंहगढ़ |
|--------------------------------|-----------------|
| अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति | |

अनुसूची(2)

| स.क्र. | नाम औद्योगिक इकाई | प्लॉट न. | परिसम्पत्ति का प्रकार |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | M/s Hindustan Coca-Cola Ltd | 89 A (I) | Boundry Wall |
| 2 | M/s Hindustan Coca-Cola Ltd | 89 B (II) | Boundry Wall |
| 3 | M/s Hindustan Coca-Cola Ltd | 92 (III) | Boundry Wall |
| 1 | F.M ENGINEERING | 90 (I) | Boundry Foundation |
| 2 | F.M ENGINEERING | 90(II) | Boundry Wall |
| 3 | F.M ENGINEERING | 90(III) | Foundation For Structure |
| 1 | L.P.J. Enterprises | 91 | Boundry Wall |
| 2 | L.P.J. Enterprises | 91 | Lat Bath |
| 3 | L.P.J. Enterprises | 91 | Platform Back Side |
| 4 | L.P.J. Enterprises | 91 | Platform Fornt Side |
| 5 | L.P.J. Enterprises | 91 | C.C. Road |
| 6 | L.P.J. Enterprises | 91 | Drain |
| 7 | L.P.J. Enterprises | 91 | Septic Tank |
| 8 | L.P.J. Enterprises | 91 | Septic Tank |
| 9 | L.P.J. Enterprises | 91 | House R.C.C. |
| 10 | L.P.J. Enterprises | 91 | House Teen Shed |
| 11 | L.P.J. Enterprises | 91 | House Teen Shed |
| 12 | L.P.J. Enterprises | 91 | C.C. Road |
| 13 | L.P.J. Enterprises | 91 | Drain |
| 14 | L.P.J. Enterprises | 91 | RCC Bulding |
| 15 | L.P.J. Enterprises | 91 | Boundry Wall |
| 16 | L.P.J. Enterprises | 91 | Boundry Wall |
| 17 | L.P.J. Enterprises | 91 | Well |

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2658-भू-अर्जन-2025

क्रमांक/02/332 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

| ग्राम सेमलागोणा | | तहसील नरसिंहगढ़ | | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|---------|-------|
| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० | | |
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| निजी | भूमि | 2.572 | - | 2.572 |

अनुसूची(2)

| स.क्र. | भूस्वामी का नाम | सर्वे न. | कुल रकबा | प्रभावित रकबा | सिंचित/ असिंचित |
|--------|--|----------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी | 426/1 | 1.175 | 0.070 | सिंचित |
| 2 | परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली | 425/2 | 1.265 | 0.110 | सिंचित |
| 3 | राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी | 424/3/1 | 0.897 | 0.080 | सिंचित |
| 4 | दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी | 438/3 | 0.379 | 0.035 | सिंचित |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|-------|--------|
| 5 | घनश्याम पिता बंदीप्रसाद जाति ब्राह्मण | 444 | 0.316 | 0.040 | सिंचित |
| | | 445 | 0.291 | 0.031 | सिंचित |
| | | 453/2 | 4.328 | 0.270 | सिंचित |
| | | 492 | 2.795 | 0.120 | सिंचित |
| 6 | रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता दोनो ना बा पिता शिवप्रसाद सर माता अनोखीबाई बेवा शिवप्रसाद जाति बलाई | 493 | 1.252 | 0.270 | सिंचित |
| | | 516/1 | 0.688 | 0.210 | सिंचित |
| 7 | राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई | 495/6 | 1.000 | 0.130 | सिंचित |
| 8 | दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी | 495/3 | 0.306 | 0.090 | सिंचित |
| 9 | माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय, रामस्वरूप पिता कैलाश जाति बलाई | 516/3 | 0.230 | 0.050 | सिंचित |
| 10 | ब्रजमोहन पिता बंदीप्रसाद जाति ब्राह्मण | 517/2 | 2.633 | 0.126 | सिंचित |
| 11 | श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण | 528/1 | 1.478 | 0.060 | सिंचित |
| | | 528/2/1 | 0.065 | 0.010 | सिंचित |
| 12 | मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण | 528/2/2/1 | 1.548 | 0.180 | सिंचित |
| 13 | शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राह्मण | 528/2/2/2 | 0.387 | 0.090 | सिंचित |
| 14 | द्वावरका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती | 527/2 | 1.063 | 0.010 | सिंचित |
| 15 | गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती | 526/1 | 0.797 | 0.210 | सिंचित |
| 16 | लक्ष्मीनारायण मागीलाल रुपनारायण पिता मोतीलाल सोदरी बाई बेवा मोतीलाल पार्वती बाई राजल बाई पुत्री मोतीलाल जाति खाती | 525/2 | 0.677 | 0.070 | सिंचित |
| 17 | कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती | 525/1 | 0.677 | 0.170 | सिंचित |
| 18 | गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन | 523/1 | 1.137 | 0.090 | सिंचित |
| 19 | भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती | 524/1/1 | 1.141 | 0.050 | सिंचित |
| योग | भूस्वामी -19 | 24 | 26.525 | 2.572 | |

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 13 मार्च 2025

क्रमांक 25/भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील व जिला राजगढ़ की ग्राम-बीरमपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 121 रकबा 0.266 हे, सर्वे नं. 120 रकबा 0.051 हे पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है। धारा-11(3) के प्रावधानों के अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम बीरमपुरा

| स.क्र. | आबादी का विवरण है:- | |
|--------|---------------------|----------|
| | आबादी के सर्वे नं. | कुल रकबा |
| 1 | 121 | 0.266 |
| 2 | 120 | 0.051 |

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- माण्डाखेड़ा

| स.क | आबादी के सर्वे नं. | कुल रकबा | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | मकान नम्बर | अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में |
|--------|--------------------|----------|---|------------|---|
| 1 | 121 | 0.266 | नारायणसिंह पिता भंवरलाल प्रभूलाल पिता भंवरलाल कन्हैयालाल पिता भंवरलाल | 34/1 | 116.00 |
| 2 | | | चेनसिंह पिता देवीराम दुलीचंद, रोड़जी पिता चेनसिंह | 47/1 | 49.20 |
| 3 | | | किशनलाल पिता गोपीलाल गंगाराम, रामबाबू पिता किशनलाल | 47/2 | 49.20 |
| 4 | | | मांगीलाल पिता अमरसिंह कालू दिनेश पिता मांगीलाल | 26/1 | 44.00 |
| 5 | | | गोरधन, बद्रीलाल पिता रामलाल | 26/2 | 44.00 |
| योग :- | | | | 5 | 302.40 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़-431001 में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प.क्र.-4186-भू-अर्जन-2024-25

नर्मदापुरम, दिनांक 13 मार्च 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक (1) से (8) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (8) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य अनुविभाग सोहागपुर के सोहागपुर-मदई मार्ग में इटारसी-जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन भी नहीं होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

--: अनुसूची :-

(1)-भूमि का वर्णन -

| अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन | | | | | | धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------------------------|----------|-----------|------------|---------------|----------------------|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्ट.) | अर्जित रकबा (हेक्ट.) | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 159/6 | 0.065 | 0.008 | कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल | सोहागपुर-मदई मार्ग में इटारसी-जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज (ROB) निर्माण कार्य। |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 158/1 | 0.251 | 0.050 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 90/1 | 2.436 | 0.036 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 213/1 | 0.741 | 0.024 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 86/1 | 0.041 | 0.020 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 92/3 | 0.607 | 0.016 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 92/1 | 1.218 | 0.024 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 196/4/1 | 0.404 | 0.008 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 196/4/2 | 0.405 | 0.008 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 97/1 | 0.684 | 0.012 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 159/7 | 0.097 | 0.008 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 86/4 | 1.067 | 0.089 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 159/1 | 0.413 | 0.076 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 159/3 | 1.181 | 0.028 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 159/4 | 0.281 | 0.040 | | |
| नर्मदापुरम | सोहागपुर | बांसखापा | 162/1 | 0.182 | 0.032 | | |
| कुल अर्जित रकबा:- | | | | | 0.479 | | |

(2)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3)- धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

(4)- यह सूचना सर्व संबंधित की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प.क्र.-2963-भू-अर्जन-प्र.क्र.01-अ-82-2024-25

हरदा, दिनांक 13 मार्च 2025

(देखिए धारा-19)

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि अनुसूची की कंडिका क्रमोंक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमोंक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमोंक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमोंक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची-1

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील -हरदा

(ग) ग्राम -कमताडा

(घ) क्षेत्रफल-1.0575 हेक्टर

| स | सर्वे नम्बर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|----------|-------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 47 / 1 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.1100 |
| 2 | 44 / 10 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.0750 |
| 3 | 47 / 12 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.4100 |
| 4 | 29 / 1 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.0225 |
| 5 | 28 / 8 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.0700 |
| 6 | 28 / 9 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.0200 |
| 7 | 28 / 6 | भूस्वामी | कृषिभूमि | 0.3500 |
| योग रकबा | | | | 1.0575 हेक्टर |

(2) लोक प्रयोजन (आर.ओ.बी. कॉसिंग नम्बर 201 पर मसनगॉव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगॉव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य) के लिये ।

(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-871-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 20 मार्च 2025

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 447/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82, रा.नि. मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82 | 245/1 | 0.006 |
| | | | 245/2 | 0.008 |
| | | | 156 | 0.001 |
| | | | 236 | 0.010 |
| | | | 158/3/3 | 0.001 |
| | | | 220 | 0.002 |
| | | | 221 | 0.008 |
| | | | 222 | 0.004 |
| | | | 169/1/2 | 0.007 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.— 82 | 169/1/1 | 0.010 |
| | | | 188 | 0.004 |
| | | | 190 | 0.006 |
| | | | 193 | 0.007 |
| | | | 194/1 | 0.006 |
| | | | 197/2 | 0.006 |
| | | | 197/1 | 0.002 |
| | | | 196/1 | 0.004 |
| | | | 195/3 | 0.006 |
| | | | 68/2 | 0.004 |
| | | | 66/1 | 0.007 |
| | | | 65/2 | 0.016 |
| | | | 65/1/2 | 0.015 |
| | | | 65/3 | 0.006 |
| | | | 73 | 0.001 |
| | | | 83 | 0.004 |
| | | | 84 | 0.004 |
| | | | 30/1 | 0.004 |
| | | | 29/4 | 0.013 |
| | | | 28/2 | 0.005 |
| | | | 28/1 | 0.005 |
| | | | 26/2/1 | 0.005 |
| | | | 26/2/2 | 0.014 |
| | | | 26/1 | 0.012 |
| कुल योग | | | 33 | 0.213 |

पत्र क्र.-874-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 442/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81, रा.नि.मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81, | 216/1 | 0.008 |
| | | | 216/3/1 | 0.005 |
| | | | 216/7 | 0.011 |
| | | | 218 | 0.017 |
| | | | 219 | 0.003 |
| | | | 226/1 | 0.004 |
| | | | 227 | 0.002 |
| | | | 178 | 0.008 |
| | | | 177 | 0.002 |
| | | | 180/4/2 | 0.003 |
| | | | 180/4/1 | 0.003 |
| | | | 180/3 | 0.006 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81, | 180/1 | 0.016 |
| | | | 183/2 | 0.012 |
| | | | 183/5 | 0.006 |
| | | | 184/6 | 0.010 |
| | | | 184/5/1 | 0.002 |
| | | | 184/9 | 0.010 |
| | | | 184/7 | 0.002 |
| | | | 162/4 | 0.008 |
| | | | 141/2 | 0.008 |
| | | | 141/1 | 0.006 |
| | | | 138/2 | 0.004 |
| | | | 137/2 | 0.004 |
| | | | 137/1 | 0.004 |
| | | | 143/1 | 0.003 |
| | | | 135/4 | 0.007 |
| | | | 135/3/1 | 0.004 |
| | | | 135/3/2 | 0.004 |
| | | | 135/2/1 | 0.010 |
| | | | 135/2/2 | 0.006 |
| | | | 133/2 | 0.006 |
| | | | 134 | 0.008 |
| | | | 132 | 0.009 |
| | | | 131/1/2 | 0.007 |
| | | | 57/7 | 0.002 |
| | | | 57/5 | 0.001 |
| | | | 57/6 | 0.004 |
| | | | 60/4 | 0.005 |
| | | | 60/1 | 0.001 |
| | | | 58/1 | 0.007 |
| | | | 45/3/2 | 0.005 |
| | | | 45/2 | 0.006 |
| | | | 44/2 | 0.005 |
| | | | 44/1 | 0.002 |
| कुल योग | | | 45 | 0.266 |

पत्र क्र.-877-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 401/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोडिया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-मोराला, प.ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्तिंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम—मोराला, प.ह.नं.—80, | 8/2/2 | 0.009 |
| | | | 45/2 | 0.009 |
| | | | 18/1 | 0.004 |
| | | | 17 | 0.004 |
| | | | 10/3 | 0.014 |
| | | | 10/2 | 0.022 |
| | | | 4/2 | 0.005 |
| कुल योग | | | 07 | 0.067 |

पत्र क्र.-880-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 437/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 एवं जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, | 76/10 | 0.001 |
| | | | 76/9/3 | 0.009 |
| | | | 76/9/2 | 0.009 |
| | | | 76/9/1 | 0.009 |
| | | | 72/3 | 0.022 |
| | | | 72/2 | 0.020 |
| | | | 72/1 | 0.029 |
| | | | 70/1 | 0.002 |
| | | | 26/4 | 0.012 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, | 26/5 | 0.016 |
| | | | 26/3 | 0.008 |
| | | | 26/1/2 | 0.012 |
| | | | 24 | 0.010 |
| | | | 22 | 0.022 |
| | | | 20/2 | 0.015 |
| | | | 18/2 | 0.036 |
| | | | 19 | 0.002 |
| | | | 12/4 | 0.018 |
| | | | 12/3 | 0.013 |
| | | | 76/11 | 0.014 |
| | | | 77/2 | 0.014 |
| | | | 60 | 0.017 |
| | | | 77/1 | 0.022 |
| | | | 78/2 | 0.011 |
| | | | 65/1 | 0.003 |
| | | | 49 | 0.001 |
| | | | 42 | 0.002 |
| | | | 80/2 | 0.005 |
| | | | 80/6 | 0.006 |
| | | | 80/5 | 0.006 |
| | | | 80/4 | 0.003 |
| | | | 82/7 | 0.001 |
| | | | 44/2 | 0.001 |
| | | | 43 | 0.005 |
| | | | 36/3 | 0.002 |
| | | | 36/2 | 0.001 |
| | | | 32/6 | 0.007 |
| | | | 32/7 | 0.004 |
| कुल योग | | | 38 | 0.390 |

पत्र क्र.-883-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 406/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोडिया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-04 व जी.एम.-05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. -84, | 84/11 | 0.049 |
| | | | | 0.005 |
| | | | 89 | 0.005 |
| | | | 171 | 0.004 |
| | | | 203 | 0.021 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम—खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. —84, | 214 | 0.007 |
| | | | | 0.011 |
| | | | 217/5/1 | 0.005 |
| | | | | 0.009 |
| | | | 283/3 | 0.011 |
| | | | 283/10 | 0.034 |
| | | | | 0.015 |
| | | | 283/4 | 0.014 |
| | | | | 0.033 |
| | | | 283/5 | 0.014 |
| | | | | 0.040 |
| | | | 283/11 | 0.007 |
| | | | | 0.013 |
| | | | 283/9 | 0.035 |
| | | | | 0.005 |
| | | | 283/26 | 0.016 |
| | | | | 0.007 |
| | | | 67/4 | 0.005 |
| | | | 67/5 | 0.011 |
| | | | 67/10 | 0.001 |
| | | | 67/9/3 | 0.015 |
| | | | 67/9/1 | 0.003 |
| | | | 7 | 0.001 |
| | | | 8 | 0.008 |
| | | | 9 | 0.003 |
| | | | 15/4 | 0.010 |
| | | | 14/10 | 0.003 |
| | | | 84/10 | 0.008 |
| | | | 202 | 0.006 |
| | | | 217/4 | 0.002 |
| | | | 283/27 | 0.001 |
| कुल योग | | | 27 | 0.437 |

पत्र क्र.-886-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 427/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम :- डेहरिया, प.ह.नं. 79, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम :- डेहरिया, प.ह.नं. 79, | 20 | 0.003 |
| | | | 19 | 0.005 |
| | | | 14/6/2 | 0.003 |
| | | | 5/4/3 | 0.009 |
| | | | 5/4/1 | 0.005 |
| | | | 5/4/2 | 0.013 |
| | | | 14/7/3 | 0.002 |
| | | | 14/7/1 | 0.001 |
| | | | 14/7/2 | 0.002 |
| | | | 14/13 | 0.002 |
| | | | 14/6/1 | 0.002 |
| | | | 14/2 | 0.007 |
| | | | 14/1 | 0.005 |
| | | | 13 | 0.001 |
| | | | 12 | 0.003 |
| | | | 9 | 0.002 |
| | | | 10/1 | 0.002 |
| | | | 10/2 | 0.016 |
| कुल योग | | | 18 | 0.083 |

पत्र क्र.-889-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 416/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोडिया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80, | 51/1 | 0.019 |
| | | | 51/2 | 0.030 |
| | | | 50 | 0.016 |
| | | | 51/4/3 | 0.001 |
| | | | 51/4/1 | 0.017 |
| | | | 48 | 0.026 |
| | | | 45/2 | 0.027 |
| | | | 35/3 | 0.011 |
| | | | 35/1 | 0.007 |
| | | | 26/3/1/1/2 | 0.026 |
| | | | 26/14 | 0.022 |
| | | | 26/13 | 0.011 |
| | | | 26/12 | 0.003 |
| | | | 26/5 | 0.003 |
| | | | 26/11 | 0.023 |
| | | | 25 | 0.007 |
| कुल योग | | | 16 | 0.249 |

पत्र क्र.-894-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 432/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-01, व 02 एवं जी.एम.-01/एल.एम.-04 व जी.एम.-02/एल.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-भनगांव, प. ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80, | 58/1/1 | 0.025 |
| | | | 56/7 | 0.004 |
| | | | 56/6 | 0.025 |
| | | | 56/9 | 0.006 |
| | | | 56/5 | 0.008 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) | | | |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|--|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80, | 56/11 | 0.009 | | | |
| | | | 56/4 | 0.010 | | | |
| | | | 56/3 | 0.010 | | | |
| | | | 56/2/1/1 | 0.006 | | | |
| | | | 56/1/2 | 0.009 | | | |
| | | | 56/1/3 | 0.009 | | | |
| | | | 10/3 | 0.005 | | | |
| | | | | 0.005 | | | |
| | | | 10/2 | 0.022 | | | |
| | | | 10/1 | 0.005 | | | |
| | | | 10/4 | 0.006 | | | |
| | | | 10/5 | 0.002 | | | |
| | | | 150/2/2 | 0.003 | | | |
| | | | 150/2/1 | 0.003 | | | |
| | | | 150/1 | 0.003 | | | |
| | | | 142/3 | 0.006 | | | |
| | | | 142/1 | 0.003 | | | |
| | | | 152/1/2 | 0.002 | | | |
| | | | 156/3 | 0.012 | | | |
| | | | 152/3 | 0.012 | | | |
| | | | 155/1 | 0.005 | | | |
| | | | 155/2 | 0.004 | | | |
| | | | 161 | 0.001 | | | |
| | | | 168/3 | 0.012 | | | |
| | | | 168/1/1 | 0.003 | | | |
| | | | 168/5 | 0.003 | | | |
| | | | 167/1/3 | 0.002 | | | |
| | | | 167/2 | 0.004 | | | |
| | | | 165 | 0.001 | | | |
| | | | 171/2 | 0.003 | | | |
| | | | 171/3 | 0.001 | | | |
| | | | 172/1 | 0.001 | | | |
| | | | 10/7 | 0.005 | | | |
| | | | 9/2 | 0.005 | | | |
| | | | 8 | 0.006 | | | |
| | | | 7 | 0.006 | | | |
| | | | 6 | 0.003 | | | |
| | | | 13/1 | 0.004 | | | |
| | | | | | | 13/3 | 0.003 |
| | | | | | | 13/2/1 | 0.002 |
| | | | 13/2/2 | 0.002 | | | |
| | | | 14/1 | 0.004 | | | |
| | | | 14/2 | 0.002 | | | |
| कुल योग | | | 47 | 0.292 | | | |

पत्र क्र.-897-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 396/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|-----------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84, | 179/3 | 0.002 |
| | | | 177/3 | 0.007 |
| | | | 177/4 | 0.007 |
| | | | 177/5 | 0.005 |
| | | | 189/7 | 0.002 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं. -84, | 189/6 | 0.010 |
| | | | 189/5/2 | 0.004 |
| | | | 189/5/1 | 0.004 |
| | | | 189/4 | 0.002 |
| | | | 189/3 | 0.005 |
| | | | 188/2 | 0.009 |
| | | | 187/1 | 0.013 |
| | | | 187/2/2 | 0.005 |
| | | | 187/2/1 | 0.005 |
| | | | 196 | 0.006 |
| | | | 199/1 | 0.024 |
| | | | 200/2 | 0.005 |
| | | | 201/3 | 0.010 |
| | | | 201/2 | 0.017 |
| | | | 201/1 | 0.010 |
| | | | 205/8 | 0.008 |
| | | | 206/4/4 | 0.005 |
| | | | 206/4/3 | 0.006 |
| | | | 206/4/2 | 0.006 |
| | | | 206/4/1 | 0.004 |
| | | | 206/7 | 0.008 |
| | | | 206/5 | 0.002 |
| | | | 209/6 | 0.006 |
| | | | 209/5 | 0.012 |
| | | | 209/4 | 0.004 |
| | | | 210/1 | 0.004 |
| | | | 212/2 | 0.009 |
| | | | 230/1 | 0.007 |
| | | | 231/1 | 0.011 |
| | | | 232/1 | 0.005 |
| | | | 233/1 | 0.001 |
| | | | 233/2/2 | 0.003 |
| | | | 233/2/1/1 | 0.002 |
| | | | 226/2 | 0.002 |
| | | | 235/2/2 | 0.002 |
| | | | 235/2/1 | 0.012 |
| | | | 235/1/2 | 0.004 |
| | | | 236/1 | 0.005 |
| | | | 236/4 | 0.001 |
| | | | 236/3 | 0.004 |
| कुल योग | | | 45 | 0.285 |

पत्र क्र.-900-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 381/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उदवहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02/एल.एम.-11/एल.एस.एम.-15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71, रा.नि.मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्वंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71, | 76/3 | 0.008 |
| कुल योग | | | 01 | 0.008 |

पत्र क्र.-903-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 386/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उदवहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-मुहाली, प.ह.नं.-68, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम—मुहाली, प.ह.नं.—68, | 191 | 0.026 |
| | | | 163 | 0.026 |
| | | | 160/1 | 0.004 |
| | | | 156 | 0.011 |
| | | | 155 | 0.006 |
| | | | 154/2/2 | 0.001 |
| | | | 154/2/1 | 0.003 |
| | | | 153/2 | 0.002 |
| | | | 153/1 | 0.003 |
| | | | 152 | 0.005 |
| | | | 150/2 | 0.011 |
| | | | 110/4 | 0.005 |
| | | | 110/3 | 0.003 |
| | | | 109 | 0.005 |
| | | | 108/1 | 0.004 |
| | | | 107 | 0.004 |
| | | | 105 | 0.015 |
| | | | 124/2 | 0.002 |
| | | | 73/1 | 0.003 |
| | | | 61/1/1 | 0.009 |
| | | | 61/2 | 0.006 |
| | | | 61/1/2 | 0.006 |
| | | | 72/2 | 0.003 |
| | | | 72/3 | 0.003 |
| | | | 62 | 0.004 |
| | | | 63 | 0.005 |
| | | | 69 | 0.002 |
| | | | 65 | 0.002 |
| | | | 64 | 0.002 |
| | | | 54 | 0.003 |
| कुल योग | | | 30 | 0.184 |

पत्र क्र.-906-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 219/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाल्यापुरा, प.ह.नं.- 60/98, रा.नि.मं.-कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| थजला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— बाल्यापुरा, प.ह.नं.— 60 / 98, | 142/3 | 0.003 |
| | | | 148/1 | 0.008 |
| कुल योग | | | 02 | 0.011 |

पत्र क्र.-909-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 244/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उदवहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|--------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, | 109/2 | 0.012 |
| | | | 150/2 | 0.003 |
| | | | 110/2 | 0.014 |
| | | | 150/1 | 0.022 |
| | | | 151/1 | 0.016 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— खेड़ी, प.ह.नं.— 51 / 142, | 153/1 | 0.006 |
| | | | 157 | 0.018 |
| | | | | 0.007 |
| | | | 156 | 0.010 |
| | | | 155 | 0.007 |
| | | | 159 | 0.005 |
| | | | 123/1/1 | 0.003 |
| | | | 262/2 | 0.003 |
| | | | 262/3 | 0.002 |
| | | | 262/1 | 0.013 |
| | | | 258/4 | 0.006 |
| | | | 261 | 0.007 |
| | | | 258/3 | 0.013 |
| | | | 255/1 | 0.017 |
| | | | 252/2 | 0.011 |
| | | | 250/1 | 0.004 |
| | | | 243/1 | 0.009 |
| | | | 243/2 | 0.013 |
| | | | 235/1 | 0.003 |
| | | | 107/1 | 0.001 |
| | | | 106/1 | 0.005 |
| | | | 105/2 | 0.016 |
| | | | 105/3 | 0.004 |
| | | | 105/1 | 0.011 |
| | | | 110/1 | 0.003 |
| | | | 117/2 | 0.012 |
| | | | 146 | 0.007 |
| | | | 123/2 | 0.018 |
| | | | 130/1 | 0.002 |
| | | | 131/1 | 0.008 |
| | | | 131/2 | 0.017 |
| | | | 60/2 | 0.034 |
| | | | 59/2 | 0.002 |
| | | | 46/3 | 0.004 |
| | | | 46/1 | 0.012 |
| | | | 33/1 | 0.004 |
| | | | 33/2 | 0.005 |
| | | | 32/1 | 0.016 |
| कुल योग | | | 42 | 0.405 |

पत्र क्र.-912-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 239/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-02 व जी.एम.-02/एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- टेमरनी, प.ह.नं.- 42/135, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- टेमरनी, प.ह.नं.- 42/135, | 262/1 | 0.006 |
| | | | 263/1 | 0.002 |
| | | | 259/3 | 0.003 |
| | | | 259/2 | 0.005 |
| | | | 259/1 | 0.006 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— टेमरनी, प.ह.नं.— 42 / 135, | 257 | 0.014 |
| | | | 268/1 | 0.014 |
| | | | 225 | 0.006 |
| | | | 115 | 0.019 |
| | | | 75/1 | 0.009 |
| | | | 75/2 | 0.005 |
| | | | 78/2 | 0.005 |
| | | | 78/1 | 0.004 |
| | | | 46 | 0.003 |
| | | | 45 | 0.009 |
| | | | 34/3 | 0.001 |
| | | | 28/3 | 0.003 |
| | | | 34/2 | 0.007 |
| | | | 28/1 | 0.005 |
| | | | 28/2 | 0.008 |
| | | | 34/1 | 0.007 |
| | | | 33/2/1 | 0.006 |
| | | | 33/1 | 0.005 |
| | | | 29/1 | 0.009 |
| | | | 18 | 0.010 |
| | | | 17 | 0.006 |
| | | | 285 | 0.018 |
| | | | 576 | 0.010 |
| | | | 632/1 | 0.008 |
| | | | 630/1 | 0.007 |
| | | | 635/1 | 0.003 |
| | | | 636/1 | 0.009 |
| | | | 536 | 0.002 |
| | | | 507 | 0.005 |
| | | | 537/2 | 0.011 |
| | | | 538 | 0.003 |
| कुल योग | | | 36 | 0.253 |

पत्र क्र.-915-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 207/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उदवहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-2/आर.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- कुसुमपुरा, प.ह.नं.- 42/135, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमांक | खसरा कमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— कुसुमपुरा, प.ह.नं.— 42 / 135, | 39/1 | 0.001 |
| | | | 39/2 | 0.002 |
| | | | 39/3 | 0.003 |
| | | | 39/4 | 0.002 |
| | | | 40/1 | 0.006 |
| | | | 40/2 | 0.002 |
| | | | 44/5 | 0.002 |
| | | | 44/4 | 0.002 |
| | | | 44/3 | 0.003 |
| | | | 44/2 | 0.003 |
| | | | 44/1 | 0.003 |
| | | | 46 | 0.003 |
| | | | 45/1 | 0.002 |
| | | | 45/2 | 0.012 |
| | | | 30 | 0.009 |
| | | | 26/2 | 0.003 |
| | | | 26/1 | 0.014 |
| | | | 25/2/2 | 0.001 |
| | | | 18 | 0.003 |
| | | | 23 | 0.011 |
| | | | 12 | 0.013 |
| | | | 6 | 0.001 |
| | | | 2 | 0.002 |
| कुल योग | | | 23 | 0.103 |

पत्र क्र.-918-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 229/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर क्रमांक-02 एवं जी.एम.-01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141, रा. नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141, | 225/2 | 0.008 |
| | | | 225/7 | 0.002 |
| | | | 225/6 | 0.002 |
| | | | 223/4 | 0.007 |
| | | | 225/5 | 0.002 |
| | | | 225/4 | 0.002 |
| | | | 223/3 | 0.006 |
| | | | 223/2 | 0.004 |
| | | | 223/6 | 0.007 |

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— अघावन, प.ह.नं.— 50 / 141, | 223/7 | 0.006 |
| | | | 225/1 | 0.002 |
| | | | 223/1 | 0.013 |
| | | | 225/3 | 0.002 |
| | | | 220/2 | 0.003 |
| | | | 233 | 0.006 |
| | | | 234 | 0.004 |
| | | | 236 | 0.007 |
| | | | 237 | 0.011 |
| | | | 238/1 | 0.004 |
| | | | 238/2 | 0.014 |
| | | | 296/3 | 0.029 |
| | | | 296/4 | 0.017 |
| | | | 297/1/1 | 0.005 |
| | | | 224/2 | 0.019 |
| | | | 269/1 | 0.007 |
| | | | 268/2 | 0.014 |
| | | | 147 | 0.007 |
| | | | 146/1 | 0.007 |
| | | | 143/3 | 0.007 |
| | | | 142 | 0.006 |
| | | | 141 | 0.002 |
| | | | 129 | 0.002 |
| | | | 127 | 0.004 |
| | | | 126/4 | 0.004 |
| | | | 126/3 | 0.001 |
| | | | 126/1 | 0.003 |
| | | | 95/2 | 0.004 |
| | | | 80/3 | 0.007 |
| | | | 80/5 | 0.010 |
| | | | 80/4 | 0.004 |
| | | | 80/1 | 0.006 |
| | | | 306/4 | 0.007 |
| कुल योग | | | 42 | 0.284 |

पत्र क्र.-921-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 214/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन-1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48/139, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------|--------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— बाजीटपुरा प.ह.नं.— 48 / 139, | 128/1/5 | 0.012 |
| | | | 127/3 | 0.002 |
| | | कुल योग | | 02 |

पत्र क्र.-924-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 224/भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- गुजारी, प.ह.नं.- 52, रा.नि.मं.-01, कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— गुजारी, प.ह.नं.— 52, | 4/1 | 0.003 |
| | | | 1/386/1 | 0.008 |
| | | | 4/4/1/2 | 0.003 |
| | | | 4/4/1/1 | 0.008 |
| कुल योग | | | 04 | 0.022 |

पत्र क्र.-927-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 493/भू-अर्जन/2024, कसरावद, दिनांक 19.03.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-2 / ग्रेविटी मेन-2 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 49/140, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.04.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला | तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| खरगोन | कसरावद | ग्राम— पोखर, प.ह.नं.— 49 / 140 | 41/2 | 0.004 |
| | | | 42/4 | 0.001 |
| | | | 42/3 | 0.001 |
| | | | 42/5 | 0.003 |
| कुल योग | | | 04 | 0.009 |

सत्येन्द्र बैरवा, भू-अर्जन आधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-09-भू-अर्जन-2025

मैहर, दिनांक 29 जनवरी 2025

कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/माइनर/सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में कार्यालय में भूमि अर्जन प्रस्ताव दिनांक 21.08.2023 को किया जाकर दिनांक 26.09.2023 को धारा-11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम ककरा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है।

मोप्रो शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा।

प्रभावित ग्राम ककरा तह0 अमरपाटन जिला मैहर की निजी भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 26.09.2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 04.11.2024 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 29.09.2023 जाकर धारा-12 के तहत कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरासी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 26/09/2023 से धारा 19 दिनांक 26/09/2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है जिसके निम्नांकित कारण हैं:—

(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 05/10/2023 को गठन एवं तत्पश्चात प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ।

(ख) विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि।

(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा-19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान हैं।

(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 29.09.2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील अमरपाटन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है।

1. भूमि का वर्णन:—

| क्र0 | ग्राम का नाम | निजी भूमि रकवा (क्ष0 लगभग) | धारा 11 के जारी होने का दिनांक | धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक | धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1. | ककरा | 3.931 हे0 | 26.09.2023 | 26.09.2024 | 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है |

2. इस प्रकार ग्राम ककरा की धारा-19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा-19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06माह की वृद्धि की जाती है।

3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:— बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की सौहट सब माइनर के नहर निर्माण हेतु।

4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

मैहर, दिनांक 11 मार्च 2025

અનુસૂચી

(घ) क्षेत्रफल— 7.0680 हे०

| क्र० | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 86/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 | 0.6200 |
| 2 | 86/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 | |
| 3 | 86/3 | |
| 4 | 68/1 | 0.1340 |
| 5 | 68/2 | |
| 6 | 68/3 | |
| 7 | 302/1/1/1/1 | 0.0730 |
| 8 | 303/1/2/1 | 0.0120 |
| 9 | 302/1/1/1/2/2/1/1 | 0.0600 |
| 10 | 302/1/2/4/1/2 | 0.0050 |
| 11 | 302/1/2/4/2 | 0.0140 |
| 12 | 305/1/1/1 | 0.1200 |
| 13 | 305/2/1 | 0.0600 |
| 14 | 305/2/2 | 0.0600 |
| 15 | 298 | 0.2510 |
| 16 | 299/1/1 | 0.0070 |
| 17 | 299/1/2 | 0.0030 |
| 18 | 300 | 0.0420 |
| 19 | 291/1 | 0.0850 |
| 20 | 291/2 | 0.0860 |
| 21 | 289/1 | 0.0850 |
| 22 | 289/2 | 0.0900 |
| 23 | 293 | 0.0020 |

| | | |
|----|----------|--------|
| 18 | 300 | 0.0420 |
| 19 | 291/1 | 0.0850 |
| 20 | 291/2 | 0.0860 |
| 21 | 289/1 | 0.0850 |
| 22 | 289/2 | 0.0900 |
| 23 | 293 | 0.0020 |
| 24 | 286/1 | 0.3280 |
| 25 | 286/2/1 | 0.0070 |
| 26 | 220/2 | 0.0080 |
| 27 | 216 | 0.0400 |
| 28 | 221/2 | 0.0920 |
| 29 | 227/1 | 0.0200 |
| 30 | 227/2/1 | |
| 31 | 227/2/2 | |
| 32 | 278/2 | 0.1020 |
| 33 | 278/1 | |
| 34 | 279/1 | 0.0140 |
| 35 | 279/2 | |
| 36 | 97/2 | 0.0090 |
| 37 | 270/2 | 0.0160 |
| 38 | 270/1/2 | |
| 39 | 270/1/1/ | |
| 40 | 269/2 | 0.2160 |
| 41 | 269/1 | |
| 42 | 267/2/1 | 0.0540 |
| 43 | 267/3 | |
| 44 | 267/1/1/ | 0.0840 |
| 45 | 265/2 | 0.0980 |
| 46 | 265/1 | 0.0600 |
| 47 | 218 | 0.0020 |
| 48 | 219 | 0.0250 |
| 49 | 217 | 0.1870 |
| 50 | 285/4 | 0.0450 |
| 51 | 285/3 | 0.0450 |
| 52 | 285/2 | 0.0320 |

| | | |
|----|-----------|--------|
| 53 | 285/1 | 0.0060 |
| 54 | 90/2/1 | 0.0500 |
| 55 | 90/3/1 | 0.2260 |
| 56 | 281 | 0.1700 |
| 57 | 282 | 0.0090 |
| 58 | 283/1 | 0.0030 |
| 59 | 93/1/1 | 0.1350 |
| 60 | 93/2/1 | |
| 61 | 91/1 | 0.0500 |
| 62 | 91/2 | |
| 63 | 94/1 | 0.2090 |
| 64 | 228/1 | 0.1910 |
| 65 | 228/2 | |
| 66 | 228/3 | |
| 67 | 228/4 | |
| 68 | 401/1/1/1 | 0.1390 |
| 69 | 401/1/1/2 | |
| 70 | 401/1/2 | |
| 71 | 1041 | 0.0020 |
| 72 | 1170 | 0.0360 |
| 73 | 1169/1 | 0.0080 |
| 74 | 1168/3/3 | 0.0060 |
| 75 | 1168/3/1 | 0.0660 |
| 76 | 1064 | 0.0020 |
| 77 | 1063 | 0.0580 |
| 78 | 1039 | 0.0560 |
| 79 | 1156 | 0.0020 |
| 80 | 1157 | 0.0740 |
| 81 | 1158/1 | 0.0180 |
| 82 | 1158/2 | 0.0100 |

| | | |
|-----|----------|--------|
| 83 | 1159 | 0.0260 |
| 84 | 1171 | 0.0360 |
| 85 | 1172 | 0.0600 |
| 86 | 1173 | 0.0040 |
| 87 | 1177 | 0.0020 |
| 88 | 1186/1 | 0.0210 |
| 89 | 1188 | 0.0610 |
| 90 | 856/1 | 0.0470 |
| | 856/2 | 0.0050 |
| 91 | 863 | 0.0420 |
| 92 | 862 | 0.0420 |
| 93 | 861 | 0.0020 |
| 94 | 871 | 0.0310 |
| 95 | 872 | 0.0230 |
| 96 | 873 | 0.0150 |
| 97 | 874 | 0.0310 |
| 98 | 875 | 0.0440 |
| 99 | 916 | 0.0040 |
| 100 | 906 | 0.0150 |
| 101 | 917 | 0.0470 |
| 102 | 914 | 0.0030 |
| 103 | 918 | 0.0230 |
| 104 | 919 | 0.0470 |
| 105 | 920 | 0.0020 |
| 106 | 921 | 0.0180 |
| 107 | 1018/1 | 0.0400 |
| 108 | 1018/2 | 0.0400 |
| 109 | 1019 | 0.0500 |
| 110 | 1020/1 | 0.0290 |
| 111 | 1020/2/1 | |
| 112 | 1020/2/2 | |

| | | |
|-----|------------|--------|
| 113 | 1057/1 | 0.0050 |
| 114 | 1057/2 | 0.0550 |
| 115 | 1025 | 0.0140 |
| 116 | 1056 | 0.0650 |
| 117 | 1037/1/1 | 0.0250 |
| 118 | 1037/1/2 | 0.0320 |
| 119 | 1037/1/3 | 0.0280 |
| 120 | 1037/2 | 0.0050 |
| 121 | 365/1 | 0.0020 |
| 122 | 354/1/1 | 0.0020 |
| 123 | 354/1/2 | 0.0230 |
| 124 | 354/1/3 | 0.0300 |
| 125 | 353/1 | 0.0080 |
| 126 | 353/2 | 0.0320 |
| 127 | 353/3 | 0.0200 |
| 128 | 352/1 | 0.0030 |
| 129 | 352/2 | 0.0290 |
| 130 | 352/3 | 0.0100 |
| 131 | 1121/1/1/1 | 0.0120 |
| 132 | 1153 | 0.0730 |
| 133 | 1151 | 0.0100 |
| 134 | 1152/1 | 0.0160 |
| 135 | 1152/2 | 0.0060 |
| 136 | 864 | 0.0070 |
| 137 | 922 | 0.0380 |
| 138 | 1122/1/6 | 0.2200 |
| 139 | 1122/1/7 | 0.1400 |
| 140 | 989 | 0.0210 |
| 141 | 990 | 0.0340 |
| 142 | 991 | 0.0040 |
| 143 | 995 | 0.0600 |

| | | |
|-----|----------|--------|
| 144 | 855 | 0.0090 |
| 145 | 1040 | 0.0210 |
| 146 | 1178 | 0.0090 |
| 147 | 1187 | 0.0400 |
| 148 | 1186/2 | 0.0250 |
| 149 | 1064 | 0.0020 |
| 150 | 1024/1 | 0.0200 |
| 151 | 1024/2 | 0.0030 |
| 152 | 907/1/1 | 0.0650 |
| 153 | 907/2 | |
| 154 | 905 | 0.0020 |
| 155 | 1060 | 0.0020 |
| 156 | 366 | 0.0020 |
| 157 | 351/1 | 0.0100 |
| 158 | 1319/991 | 0.0030 |
| 159 | 1320/990 | 0.0340 |
| 160 | 854 | 0.0110 |
| 161 | 363 | 0.0880 |
| 162 | 364 | 0.0420 |
| 163 | 365/2 | 0.0220 |
| | कुल योग | 7.0680 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— नहर के सोनौरा सब ब्रान्च कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।
- 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-37-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता तः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा विहित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

मे का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम - उमराही मधुरियान

(घ) क्षेत्रफल- 4.5780हे०

| क्र. | खसरा नं. | प्रस्तावित रकबा |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 103/1 | 0.0420 |
| 2 | 103/2 | 0.0350 |
| 3 | 101/1 | 0.7730 |
| 4 | 101/2/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/1/1/1 | 0.0040 |
| 5 | 99 | 0.6530 |
| 6 | 96/1/2 | 0.6180 |
| 7 | 98/1/2 | 0.0500 |
| 8 | 97 | 0.0650 |
| 9 | 74/2 | 0.0050 |
| 10 | 76/2 | 0.0900 |
| 11 | 76/1 | 0.1780 |
| 12 | 76/3 | 0.3360 |
| 13 | 76/4 | 0.3360 |
| 14 | 24 | 0.1350 |
| 15 | 25 | 0.3600 |
| 16 | 26 | 0.0350 |
| 17 | 27 | 0.0050 |
| 18 | 75/1 | 0.0050 |
| 19 | 75/2 | 0.0250 |
| 20 | 22/2 | 0.3850 |
| 21 | 23/2 | 0.4050 |
| 22 | 21 | 0.0360 |
| | योग | 4.5780 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्च कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।
- 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-38-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - देवरा

(घ) क्षेत्रफल- 5.2420हे०

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकबा |
|------|-----------|-----------------|
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 195 | 0.0120 |
| 2 | 63/1 | 0.0580 |
| 3 | 7/1 | 0.0170 |
| 4 | 18/2 | 0.0090 |
| 5 | 79/1 | 0.2800 |
| 6 | 79/2 | 0.2800 |
| 7 | 79/3 | 0.2800 |
| 8 | 147/1 | 0.0020 |
| 9 | 169 | 0.0110 |
| 10 | 167 | 0.0860 |
| 11 | 198 | 0.1390 |
| 12 | 201 | 0.0420 |
| 13 | 202 | 0.0080 |
| 14 | 204/1 | 0.0500 |
| 15 | 204/2 | 0.0500 |
| 16 | 211 | 0.0540 |
| 17 | 209 | 0.0580 |

| | | |
|----|----------|--------|
| 18 | 344 | 0.0080 |
| 19 | 346 | 0.0020 |
| 20 | 959/2 | 0.1140 |
| 21 | 1040 | 0.0020 |
| 22 | 1037 | 0.0020 |
| 23 | 146 | 0.0470 |
| 24 | 148 | 0.1490 |
| 25 | 149/1 | 0.0020 |
| 26 | 149/2 | |
| 27 | 168 | 0.0150 |
| 28 | 170 | 0.1010 |
| 29 | 197 | 0.1090 |
| 30 | 203/1 | 0.0410 |
| 31 | 203/2 | |
| 32 | 214 | 0.0080 |
| 33 | 342 | 0.0420 |
| 34 | 343 | 0.1500 |
| 35 | 373 | 0.1420 |
| 36 | 140/1 | 0.1460 |
| 37 | 140/2 | 0.1200 |
| 38 | 140/3 | 0.1180 |
| 39 | 19/1 | 0.1330 |
| 40 | 19/2/1 | |
| 41 | 19/2/2/1 | |
| 42 | 19/2/2/2 | |
| 43 | 17/1 | 0.0390 |
| 44 | 17/2 | 0.0130 |
| 45 | 17/3 | 0.0580 |
| 46 | 15/1 | 0.1800 |

| | | |
|----|---------|--------|
| 47 | 15/2 | |
| 48 | 15/3 | |
| 49 | 1018/3 | 0.1130 |
| 50 | 1022 | 0.0180 |
| 51 | 1023/1 | 0.0550 |
| 52 | 1026 | 0.0240 |
| 53 | 1027 | 0.0240 |
| 54 | 1028/2 | 0.0250 |
| 55 | 1029/2 | 0.0150 |
| 56 | 1030/2 | 0.0280 |
| 57 | 1038 | 0.1050 |
| 58 | 1039 | 0.0100 |
| 59 | 955 | 0.2300 |
| 60 | 957 | 0.0080 |
| 61 | 958 | 0.5500 |
| 62 | 975 | 0.1150 |
| 63 | 976/1/1 | 0.1570 |
| 64 | 976/1/2 | 0.1570 |
| 65 | 976/2 | 0.1570 |
| 66 | 976/3 | 0.1570 |
| 67 | 960/1 | 0.1590 |
| 68 | 960/2/1 | 0.1590 |
| 69 | 960/2/2 | 0.1590 |
| 70 | 372 | 0.0820 |
| 71 | 4 | 0.1460 |
| 72 | 16 | 0.0430 |
| 73 | 60/1 | 0.0250 |
| 74 | 61/1 | 0.1180 |
| 75 | 61/2 | |
| 76 | 61/3 | |
| 77 | 83/2/1 | 0.0210 |
| 78 | 105/1/2 | 0.1840 |
| 79 | 105/2/3 | 0.1840 |
| 80 | 106/1 | 0.0210 |
| 81 | 145/1 | 0.1930 |
| 82 | 145/2 | 0.0070 |
| 83 | 139/1 | 0.0020 |
| 84 | 194 | 0.0040 |
| 85 | 1036/2 | 0.0090 |
| | | 5.2420 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— नहर के सोनौरा सब ब्रान्च कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।
- 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-39-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - चपना
(घ) क्षेत्रफल- 0.812 हे०

| क्र० | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 700/1 | 0.0730 |
| 2 | 699/2 | 0.1350 |
| 3 | 701 | 0.3180 |
| 4 | 698/1/1 | 0.2340 |
| 5 | 698/1/2 | |
| 6 | 702/1/1 | 0.0520 |
| 7 | 702/1/2 | |
| | कुल योग | 0.8120 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्च कैनल नं० 01 नहर निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-2504-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 8 नवम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम - पैकोरी
(घ) क्षेत्रफल- 0.3030 हे०

| क्र० | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|---|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | भगवनिया बेवा रामनरेश श्रीनिवास रामसोहावन श्रीपत मनमरण पिता रामनरेश कुशवाहा जाति काछी पता पैकोरी,सतना सा० देह भूमिस्वामी | 356/1 | 0.3030 |
| | योग रकवा | | 0.3030 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-554-भू-अर्जन-2024-अ-82-2024-25

सतना, दिनांक 18 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|---------------|-------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | रामपुरबाघेलान | खोखम | 9.0812 | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर जिला-मैहर (म0प्र0) | रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरियाखुर्द वितरिका एवं करही कोठार माइनर के निर्माण हेतु |

| क्र0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 640/1 | 0.3600 |
| 2 | 640/2 | |
| 3 | 641 | |
| 4 | 642/1/1 | |
| 5 | 642/1/2 | |
| 6 | 642/2 | 0.2120 |
| 7 | 643 | |
| 8 | 644/1 | |
| 9 | 644/2 | 0.2270 |
| 10 | 645/1/1 | 0.0820 |
| 11 | 645/1/2 | |
| 12 | 645/2/1 | |
| 13 | 645/2/2 | |
| 14 | 646/1/1 | 0.0390 |
| 15 | 646/1/2 | |
| 16 | 646/2 | |
| 17 | 647/1 | 0.3040 |

| | | |
|----|-------------|--------|
| 18 | 647/2 | |
| 19 | 648 | 0.0050 |
| 20 | 660/1/1 | 0.5500 |
| 21 | 660/1/2/1 | |
| 22 | 660/1/2/2 | |
| 23 | 660/1/3 | |
| 24 | 660/1/5/1 | |
| 25 | 660/1/5/2/1 | |
| 26 | 660/1/5/2/2 | |
| 27 | 660/1/6 | |
| 28 | 660/3 | |
| 29 | 661 | 0.0060 |
| 30 | 668 | 0.3200 |
| 31 | 662/1242/1 | 0.0730 |
| 32 | 662/1242/3 | |
| 33 | 662/1242/4 | |
| 34 | 819 | 0.2920 |
| 35 | 820 | 0.0730 |
| 36 | 821/1 | 0.4660 |
| 37 | 821/2 | |
| 38 | 822/1 | 0.0520 |
| 39 | 822/2 | |
| 40 | 844 | 0.2670 |
| 41 | 860 | 0.2530 |
| 42 | 875 | 0.0170 |
| 43 | 850 | 0.1580 |
| 44 | 846 | 0.1980 |
| 45 | 848 | 0.2510 |
| 46 | 849 | 0.0270 |
| 47 | 859 | 0.0080 |
| 48 | 662/1242/2 | |
| 49 | 845 | 0.0130 |
| 50 | 862/1 | 0.1780 |
| 51 | 862/2/1 | |
| 52 | 862/2/2 | |

| | | |
|----|----------|--------|
| 53 | 561 | 0.1420 |
| 54 | 557 | 0.0610 |
| 55 | 558 | 0.1300 |
| 56 | 602 | 0.0160 |
| 57 | 603 | 0.2750 |
| 58 | 611/1 | 0.2350 |
| 59 | 611/2 | |
| 60 | 611/3 | |
| 61 | 611/4 | |
| 62 | 612/1 | 0.0260 |
| 63 | 612/2 | |
| 64 | 672/2 | 0.3120 |
| 65 | 680/1 | 0.0020 |
| 66 | 680/2 | |
| 67 | 681/1 | 0.0010 |
| 68 | 681/2 | |
| 69 | 682/1 | 0.2520 |
| 70 | 682/2 | |
| 71 | 683/1 | 0.0130 |
| 72 | 683/2 | |
| 73 | 699/1 | 0.1720 |
| 74 | 699/2 | |
| 75 | 700 | 0.0810 |
| 76 | 701/1 | 0.2430 |
| 77 | 701/2 | |
| 78 | 707/1 | 0.3000 |
| 79 | 707/2 | |
| 80 | 800 | 0.0530 |
| 81 | 802 | 0.1260 |
| 82 | 803 | 0.0280 |
| 83 | 804 | 0.0010 |
| 84 | 805 | 0.1880 |
| 85 | 831 | 0.1820 |
| 86 | 832 | 0.0580 |
| 87 | 836 | 0.0320 |
| 88 | 837 | 0.0040 |
| 89 | 1229/837 | 0.0010 |
| 90 | 858 | 0.1740 |
| | | 7.5390 |
| | | 1.5422 |
| | | 9.0812 |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-555-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील-रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - चोरहटा

(घ) क्षेत्रफल- 2.4190 हे०

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|--|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | गंगा पिता उपेन्द्र कुमार पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 868/2 | 0.0450 |
| 2 | सोना बेवा बट्टी सिंह,राम सिंह,सम्पत सिंह,रामवती,विमला,कमला,गयलद पिता बट्टी सिंह,सियादुलारी,कुलदीप,नारेन्द्र सिंह,ज्योति,उमा पिता मदन सिंह,गायत्री,मणिराज,राजेन्द्र सिंह,रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह,प्रशांत सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल,रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह,संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह,रामराज सिंह पिता देमान सिंह,राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह,रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 869 | 0.1890 |
| 3 | सोना बेवा बट्टी सिंह,राम सिंह,सम्पत सिंह,रामवती,विमला,कमला,गयलद पिता बट्टी सिंह,सियादुलारी,कुलदीप,नारेन्द्र सिंह,ज्योति,उमा पिता मदन सिंह,गायत्री,मणिराज,राजेन्द्र सिंह,रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह,प्रशांत सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल,रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह,संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह,रामराज सिंह पिता देमान सिंह,राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह,रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 870 | 0.0120 |
| 4 | सोना बेवा बट्टी सिंह,राम सिंह,सम्पत सिंह,रामवती,विमला,कमला,गयलद पिता बट्टी सिंह,सियादुलारी,कुलदीप,नारेन्द्र सिंह,ज्योति,उमा पिता मदन सिंह,गायत्री,मणिराज,राजेन्द्र सिंह,रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह,प्रशांत सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल,रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह,संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह,रामराज सिंह पिता देमान सिंह,राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह,रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 821 | 0.0550 |
| 5 | अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 874/1/2/2 | 0.0950 |
| 6 | सम्पत सिंह पिता बट्टी सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 873/2 | 0.0200 |
| 7 | संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक पिता बट्टी प्रसाद पाठक पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 872/1 | 0.0460 |
| 8 | गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 872/2 | 0.0460 |
| 9 | तीरथ प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 872/3 | 0.0900 |

| | | | |
|----|--|-----------|--------|
| 10 | संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक पिता बट्टी प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 816/1 | 0.0650 |
| 11 | गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 816/2 | 0.0660 |
| 12 | संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक पिता बट्टी प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 815/1 | 0.0080 |
| 13 | गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 815/2 | 0.0080 |
| 14 | गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 876/2 | 0.0010 |
| 15 | बालकृष्ण गुप्ता पिता भगवानदास गुप्ता जाति बानी पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 728/1 | 0.0440 |
| 16 | अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 729/1 | 0.0170 |
| 17 | रामखेलावन पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 730/2 | 0.0320 |
| 18 | संजय कुमार पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 730/3 | 0.0330 |
| 19 | बट्टी प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 727/1 | 0.2430 |
| 20 | सुन्दरलाल पिता समलिया साहू जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 727/2/1 | 0.0120 |
| 21 | बट्टी प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 726/1 | 0.0180 |
| 22 | शोभनाथ पिता मिर्सा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 723/2 | 0.0170 |
| 23 | प्रहलाद, मोहनलाल, कैलाश, सोहनलाल पिता मोतीलाल साहू जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 722/1/1 | 0.0070 |
| 24 | बेल्ली बेवा मुन्ना अशोक, शिवराम पिता मुन्ना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 722/1/2 | 0.0970 |
| 25 | शोभनाथ पिता मिर्सा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान | 722/2/1 | 0.0340 |
| 26 | सरजू पिता मिर्सा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान | 722/2/2 | 0.0220 |
| 27 | भूपेन्द्र पिता रामखेलावन पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 721 | 0.0620 |
| 28 | बृजेन्द्र पिता रामखेलावन पता सा. देह भूमिस्वामी | 714 | 0.1530 |
| 29 | राजमान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी | 715/1 | 0.0560 |
| 30 | कुलदीप सिंह नारेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान | 715/2 | 0.0900 |
| 31 | राजमान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी | 716/1 | 0.0070 |
| 32 | अशोक सिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान | 684/1/1/2 | 0.0900 |
| 33 | श्रीपत पिता भेल्ला जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 684/2/2 | 0.0650 |
| 34 | रामकृपाल पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 684/2/4/2 | 0.0050 |
| 35 | सुरिजबली पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 684/2/4/3 | 0.0050 |
| 36 | मनबसिया पत्नी बेटइया, गजाधर, किशोरी पिता बेटइया जियालाल, बैजनाथ पिता बेटइया जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 684/2/5 | 0.0650 |

| | | | |
|----|--|---------|--------|
| 37 | दुइजी बेवा सुखदेउना पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 684/2/6 | 0.0250 |
| 38 | विनीत कुमार पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 685/2/2 | 0.0440 |
| 39 | रामसिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 687/1 | 0.0220 |
| 40 | विन्दी पुत्री रामगरीब जाति दर्जी पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 678/2 | 0.0110 |
| 41 | अंगद प्रसाद पिता पंचिया जाति तेली पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 688 | 0.0070 |
| 42 | मणिराज सिंह पिता रामकन्हाई सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 676/1 | 0.0430 |
| 43 | राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 676/2 | 0.0430 |
| 44 | बुद्धसेन साहू पिता पंचा साहू पता सा. देह भूमिस्वामी | 676/3 | 0.0860 |
| 45 | शिव मंगल सिंह पिता बंशधारी सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 677 | 0.0050 |
| 46 | अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 635 | 0.1600 |
| 47 | अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 636 | 0.0510 |
| 48 | राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी | 675/2 | 0.0020 |
| | योग | | 2.4190 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की काशा माइनर के निर्माण हेतु के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-556-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम खरवाही तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 14.7228 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 29.09.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने एवं युक्तियुक्त सर्वेक्षण न हो पाने पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं हो पाया। प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 29.09.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 29.09.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील-रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - खरवाही

(घ) क्षेत्रफल- 10.7360 हे०

| क्र० | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|--|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नागेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 26 | 0.0800 |
| 2 | कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 52/1 | 0.0180 |
| 3 | रामराज सिंह पिता जनार्दन सिंह,नागेन्द्र सिंह,भूपेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह जाति चौहान पता सा० देह भूमिस्वामी | 47 | 0.0980 |
| 4 | कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 49 | 0.0320 |
| 5 | मिरझ्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 48/2 | 0.0040 |
| 6 | मिरझ्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 90/2 | 0.0910 |
| 7 | मोला पिता धनुआ घसिटिया पुत्री धनुआ लल्ली बेवा धनुआ रत्नू पिता धनुआ गीता बेवा रामप्रकाश घनश्याम जयश्री पिता रामप्रकाश पता सा० देह भूमि स्वामी | 88/1 | 0.0810 |
| 8 | भैयालाल पिता परमेश्वरदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 88/2 | 0.0210 |
| 9 | रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी | 314 | 0.0440 |
| 10 | कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी | 313/1/1 | 0.0120 |

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 11 | मिरड्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 313/2 | 0.0210 |
| 12 | रामसेवक पिता विशेषर जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 312 | 0.0320 |
| 13 | संतोष कुमार पिता भरत प्रसाद कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 311/2/2 | 0.0040 |
| 14 | पंचमलाल पिता झुरी जाति चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 311/3/1 | 0.0450 |
| 15 | बाबूलाल पाल पिता धानू पाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1046/1/1 | 0.0730 |
| 16 | भूपेन्द्र सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1046/1/2 | 0.1240 |
| 17 | संतोष कुमारी बेवा रामसेवक पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1046/2/1/1 | 0.0570 |
| 18 | बुट्टी पत्नी शियाशरण जाति कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 316 | 0.0500 |
| 19 | पप्पी कुशवाहा पत्नी ओमप्रकाश कुशवाहा नथुआ कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 317 | 0.0440 |
| 20 | कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा0 देह भूमिस्वामी | 323/4 | 0.0450 |
| 21 | म0प्र0शासन शासकीय पट्टेदार भैयालाल पिता परमेश्वरदीन मोला पिता धनुवा वगैरा | 255 | 0.0520 |
| 22 | म0प्र0शासन शासकीय पट्टेदार रामाधार पिता धानु कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 138 | 0.0820 |
| 23 | राजकली बेवा शिवचरण संतोष रामराघव पिता शिवचरण कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 319/1/3/1 | 0.0160 |
| 24 | जगदीश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 319/1/3/2 | 0.0160 |
| 25 | राजेश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 322/1/3/3 | 0.0160 |
| 26 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1073 | 0.0820 |
| 27 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1072 | 0.0040 |
| 28 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1071 | 0.0280 |
| 29 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1067 | 0.0250 |
| 30 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1068 | 0.0300 |
| 31 | चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1069 | 0.0040 |
| 32 | हरप्रसाद,रामसेवक,रामचंद्र,दुआसिय,कमली पिता रामजियावन गुलाबदास कमलेश कैलाश रामनारायण पिता रामसरण जाति सोनार पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1058 | 0.0830 |
| 33 | रमास्वरूप पिता शिवदास,सुकखी बेवा शिवदास,रामसजीवन पिता शिवदास,लल्लू पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1057 | 0.0020 |
| 34 | सोनिया पति हनुमानदीन बबली कुसुमकुमारी शिवकुमार रोहितलाल शिवकुमारी पिता हनुमानदीन जाति गडारी पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1055 | 0.0850 |

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 35 | अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1106/1 | 0.0820 |
| 36 | अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1106/2 | |
| 37 | अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1107/1 | 0.0500 |
| 38 | अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1107/2 | |
| 39 | अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 839/1 | 0.0080 |
| 40 | अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 839/2 | |
| 41 | अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 840/1 | 0.0650 |
| 42 | अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 840/2 | |
| 43 | द्रोपती,रामायण प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी | 837 | 0.0150 |
| 44 | लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 838 | 0.0400 |
| 45 | जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1124/1 | 0.0980 |
| 46 | संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1124/2 | |
| 47 | जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, | 1125/1 | 0.0100 |
| 48 | संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1125/2 | |
| 49 | रामस्वरूप पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1126 | 0.0100 |
| 50 | चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा, रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 880 | 0.0150 |
| 51 | चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा, रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 884 | 0.0020 |
| 52 | कलावती पत्नी शिवदीन चौधरी राममिलन रामावतार लीलावती चंदा गेंदिया पिता शिवदीन चौधरी,सियाशरण चौधरी पिता रामसेवक एगसिया गीता पिता रामसेवक मिट्ठू बाई बेवा रामचरण रामनरेश राकेश रामचरण रामनरेश राकेश सुनीता द्रोपती पिता रामचरण पता रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 974/1/1 | 0.1250 |
| 53 | कौशल प्रसाद विश्वकर्मा पिता मंगलदीन विश्वकर्मा पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1525/1/2/1 | 0.0140 |
| 54 | सावित्री पत्नी सुरेश दिनेश उमेश पिता सुरेश चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1525/2/2/1 | 0.0660 |
| 55 | सौरभ सिंह पिता लालबहादुर सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1525/2/2/2 | 0.2900 |
| 56 | लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1108 | 0.0240 |

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 57 | प्रवीण कुमार कोल पिता रामहर्ष कोल जाति कोल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1529/2/2 | 0.1750 |
| 58 | मु.बेवा बिन्दा जगजीवन संतलाल पिता बिन्दा जाति चमार पता बाबूपुर सा0 देह भूमिस्वामी | 1539/1 | 0.0310 |
| 59 | लक्ष्मू पिता घुरइया जाति चमार पता बाबूपुर भूमिस्वामी | 1539/2 | 0.0350 |
| 60 | मोलइया पिता गिरधारी जाति चमार पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1539/3 | 0.0430 |
| 61 | जानकी देवी पत्नी छोटेलाल सिंह पता रामपुर मुडवार भूमिस्वामी | 1535/1/1 | 0.0100 |
| 62 | रामाकांत शुक्ला पिता रामलखन शुक्ला हनुमान नगर नई बस्ती सतना | 1524/1/5/2 | 0.1000 |
| 63 | बुट्टी पत्नी धनिया श्रीराम पिता धनिया श्यामबाई पुत्री धनिया जाति कोल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1524/2 | 0.2400 |
| 64 | मु.जियाबाई,बेवा गनपत बाबूलाल पिता गनपत जाति कोल पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1524/3 | 0.1000 |
| 65 | गीता,धनश्याम,जयश्री पिता रामप्रकाश पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 53/2 | 0.0510 |
| 66 | कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 51/1 | 0.0060 |
| 67 | कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 50/1 | 0.0190 |
| 68 | कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा0 देह भूमिस्वामी | 89/4 | 0.0780 |
| 69 | मु.उदसिया बेवा रामसहाय,सूरजदीन,रामलाल,छोटेलाल पिता रामसहाय,धिनइया पिता बाबादीन,धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा0 देह भूमिस्वामी | 140 | 0.0090 |
| 70 | मु.उदसिया बेवा रामसहाय,सूरजदीन,रामलाल,छोटेलाल पिता रामसहाय,धिनइया पिता बाबादीन,धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा0 देह भूमिस्वामी | 139 | 0.1360 |
| 71 | परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 263/1 | 0.0050 |
| 72 | परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 264/1/1 | 0.0430 |
| 73 | रामराधौ सिंह पिता राजबली सिंह जाति चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 264/1/2 | 0.0050 |
| 74 | धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 264/2 | 0.0110 |
| 75 | धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 265 | 0.0580 |
| 76 | फूलमती पति भोजराज रघुराज सुशीला एवम गीता पिता भोजराज सावित्री बेवा प्रेमलाल सिंह शैलेन्द्र उपेन्द्र देवेन्द्र पिता प्रेमलाल सिंह जाति चौहान पता सा0 देह भूमिस्वामी | 257/2 | 0.0680 |
| 77 | मु.छोटी, बेवा पोटी राजू पिता पोटी जाति कुम्हार पता सा0 देह भूमिस्वामी | 254/1 | 0.0340 |
| 78 | माईलाल पिता कुम्हारइया जाति कुम्हार जाति कुम्हार पता सा0 देह भूमिस्वामी | 254/2 | 0.0140 |
| 79 | जगदीश प्रसाद पिता राममिलन जाति ब्रा0 पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 253/1 | 0.0680 |
| 80 | रामाधार पिता धनुआ काछी पता सा0 देह भूमिस्वामी | 270/1 | 0.0770 |

| | | | |
|----|--|---------|--------|
| 81 | कुसुम सिंह पत्नी लालबहादुर सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 273 | 0.1170 |
| 82 | अवधराज सिंह पिता सत्यभान सिंह जाति बघेल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 276/2 | 0.0660 |
| 83 | शंखधर सिंह, सुग्रीव सिंह, कुन्ती पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 277/2 | 0.0020 |
| 84 | लक्ष्मण पिता बहोरी जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 330/2 | 0.0340 |
| 85 | अरूण कुमार पिता बंदी प्रसाद जाति कुशवाहा पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 330/3 | 0.0340 |
| 86 | कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 327/1/1 | 0.0330 |
| 87 | गोकरण कुशवाहा पिता तीरथ कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 327/1/2 | 0.0380 |
| 88 | मिरझ्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 327/2 | 0.0070 |
| 89 | ललिता पत्नी बंदी प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1239 | 0.0190 |
| 90 | मु.मुनिया बेवा कृष्णकुमार गीता, रेनू पुत्री कृष्ण कुमार ना.बली मां. मु.मुनिया सा0 देह भूमिस्वामी | 1286/2 | 0.0370 |
| 91 | हरीनारायण पिता जागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1235 | 0.0970 |
| 92 | अभिषेक पाण्डेय पिता बृजकिशोर जाति ब्रा0 पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1234 | 0.0880 |
| 93 | अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजु अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1232 | 0.0600 |
| 94 | हीरालाल पिता सहादेव जाति तेली पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1233/2 | 0.0200 |
| 95 | रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1230 | 0.0980 |
| 96 | ललिता पत्नी बंदी प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1237 | 0.0070 |
| 97 | ललिता पत्नी बंदी प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1238 | 0.0080 |
| 98 | रामपाल पिता करण सिंह अमयरज पिता तेजभान सिंह रामराज सिंह सुमद्रा सिंह पुत्ती सिंह पिता कालू सिंह समरबहादुर सिंह विष्णुबहादुर सिंह मा मुद्दी सिंह मुन्नी सिंह पति महेन्द्रपाल सिंह राजेन्द्र सिंह रामराघव सिंह पिता राजबल सिंह केतकी सिंह पत्नी शिवराज सिंह द्वारपाल सिंह पुष्पराज सिंह पुष्पा सिंह परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह केशव सिंह अनंतप्रताप सिंह उमाप्रताप सिंह जाति चौहान, उर्मिला प्रताप सिंह पिता तिलकराज सिंह रघुराज सिंह प्रेमलाल सिंह गीता सिंह सुशीला सिंह पिता भोजराज सिंह नागेन्द्र सिंह भूपेन्द्र सिंह गुलब्बा, सावित्री, मुन्नी सिंह सत्यभामा देवी पिता हेतराज सिंह मु कुन्ती बेवा देशराज सिंह शंखधर सुग्रीव पिता देशराज सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1229 | 0.1800 |

| | | | |
|-----|--|----------------|--------|
| 99 | प्रदुमन प्रताप सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1226/2 | 0.3660 |
| 100 | शुभम कुमार पाण्डेय पिता सम्पत कुमार पाण्डेय पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1080/2/1/2 | 0.1500 |
| 101 | यशोदा बाई पत्नी महीप सिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1081/1/1/1/2 | 0.2200 |
| 102 | बीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्म पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1081/1/1/1/7 | 0.0800 |
| 103 | राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1081/1/1/2/1/9 | 0.0800 |
| 104 | राजेन्द्र सिंह पिता रामस्वयंवर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1081/1/1/4 | 0.0800 |
| 105 | रामस्वयंवर सिंह पिता मंगल सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1077/1/1/1 | 0.0970 |
| 106 | वीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मबंशी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1077/1/2 | 0.1960 |
| 107 | राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1077/1/3/2 | 0.2200 |
| 108 | छोटइया पिता विशाल गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1076/2/1/2 | 0.0360 |
| 109 | ठाकुरदीन पिता विशाल गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1076/2/1/3 | 0.0380 |
| 110 | राजेश पिता कताहुर रजुआ पत्नी विशाली उमेश पिता विशाली दुहजी पत्नी रामनरेश नरेश पिता रामनरेश जुगराज लहुरईया चुनकईया संतोष मझकी पिता सुखदेव ममता पत्नी ललवा बबलू भदइया पिता ललवा पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1076/2/6 | 0.1180 |
| 111 | कलुवा पिता सुन्दरपाल लल्लू पाल रामजी लालजी पप्पी आकांक्षा पिता कलुवा पाल | 1075/1/2 | 0.0510 |
| 112 | अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजू अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1075/3/1/1/1 | 0.0550 |
| 113 | राजेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता रामनिवास कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1075/3/1/1/2 | 0.0290 |
| 114 | राजाराम पिता सुकुउआ जाति धोबी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1075/4/1/1/2 | 0.0920 |
| 115 | बालकरण पिता विशाल जाति गडरिया जाति गडरिया पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 979/3 | 0.2610 |
| 116 | श्यामवती पत्नी इन्द्रमान सिंह पता घटवेलवा, सतना सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/1/1/1 | 0.1920 |
| 117 | विजयमान सिंह पिता रघुनाथ सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/1/1/2 | 0.1010 |
| 118 | विवेक सिंह पिता अभयराज सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/1/1/3 | 0.1110 |
| 119 | शांती देवी पत्नी सौखीलाल सिंह पता वर्ती, सतना सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/1/1/4 | 0.2270 |
| 120 | श्रीमती मीनादेवी विश्वकर्मा पत्नी महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा0 लोहरौरा उचेहरा | 979/1/1/1/5/2 | 0.0120 |

| | | | |
|-----|---|------------|--------|
| 121 | रामदत्त पिता लोधमन जाति गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/2/1 | 0.0880 |
| 122 | रामजस पिता रामदास जाति गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 979/1/2/2 | 0.0880 |
| 123 | दिनेश साहू पिता रामसिया साहू पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 980/2/1/2 | 0.0520 |
| 124 | परीक्षित सिंह वगैरह राघवेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह तेजमान सिंह पिता लाखन सिंह अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीवलोचन सिंह,पृथ्वीराज सिंह पिता तेजमान सिंह,राजीवलोचन,संजीवलोचन पिता तेजमान जाति परिहार पता चोरहटा,सा0 देह भूमिस्वामी | 1697 | 0.5380 |
| 125 | रामकताहुर पिता धुन्धा जाति चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 973/1/1 | 0.0430 |
| 126 | लक्ष्मीनारायण तनय मोहनलाल गुप्ता पता टिकुरिया टोला सतना सुनील अग्रवाल तनय बाबूलाल अग्रवाल पता भरहुतनगर सतना सा0 देह भूमिस्वामी | 973/1/2 | 0.2000 |
| 127 | श्रीमती शिखा पति सचिन गुप्ता श्रीमती निधी पति संदीप गुप्ता पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1528/2/2 | 0.2500 |
| 128 | रूपमती,पति बाल्मीकि कोल पता सा0 देह धर्मदास पिता मुन्ना कोल पता ओवरा तह अमरपाटन सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/3/1/3 | 0.0560 |
| 129 | सिरमोहन पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/5/1 | 0.1000 |
| 130 | शिवप्रसाद पिता हरीदीन जाति काछी पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/5/2 | 0.0500 |
| 131 | अमृतलाल पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/5/3 | 0.0500 |
| 132 | इन्द्रकली पत्नी बाबूलाल जाति ब्रा0 पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/6 | 0.0230 |
| 133 | रामू पति कनछेदी जाति काछी पता बाबूपुर सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/7 | 0.0720 |
| 134 | रामप्रसाद पिता श्यामसुन्दर सोनी पता बाबूपुर सा0 देह भूमिस्वामी | 1534/8/1 | 0.0400 |
| 135 | फगुना पिता पियारे जाति कोल पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1537/1 | 0.0530 |
| 136 | ददू पिता सुरिजदीन जाति कोल पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1537/2 | 0.0530 |
| 137 | रामदास पिता रामदीन जाति कोल पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1537/3 | 0.0530 |
| 138 | रामकुशल आदिवासी तनय चोंदू कोल जाति कोल पता शिवपुरवा सा0 देह भूमिस्वामी | 1537/4 | 0.0710 |
| 139 | सुरिजदीन पिता अर्जुन जाति पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1537/5 | 0.0930 |
| 140 | सविता देवी गुप्ता पति शिवकुमार गुप्ता पता सा0 देह भूमिस्वामी | 1536/5 | 0.0560 |
| 141 | कमलेश प्रताप सिंह पिता छोटेलाल सिंह जाति बघेल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1536/3/1 | 0.0620 |
| 142 | अलकेश प्रताप पिता छोटेलाल सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1536/4 | 0.0620 |
| 143 | दुलीचंद्र पिता स्वामीदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 862/1 | 0.0540 |
| 144 | सीतादेवी सिंह पत्नी शंखधर सिंह जाति कुर्म0 पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 981/1 | 0.2700 |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------|
| 145 | संतोष कुमार बेवा रामसेवक पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 988 | 0.0860 |
| 146 | संतोष कुमार पिता सरजू प्रसाद रामसुशील पिता सरजूद प्रसाद नाबा बली सर पिता सरजू प्रसाद जाति कुशवाहा साकिन देह भूमिस्वामी | 328 | 0.0840 |
| 147 | गया प्रसाद पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 863/1 | 0.0220 |
| 148 | राजेश पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमिस्वामी | 863/2 | 0.0600 |
| 149 | सुरेश पिता रामसजीवन काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 863/3 | 0.0060 |
| 150 | शैलेन्द्र पिता बद्री प्रसाद काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/2/1 | 0.0210 |
| 151 | ललती पत्नी रामनिवास अशोक अजय विजय पिता रामनिवास साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/2/2 | 0.0210 |
| 152 | सुनील कुशवाहा पिता केदार कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/2/3 | 0.0270 |
| 153 | जगन्नाथ पिता विशाली कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/2/4 | 0.0060 |
| 154 | गजेन्द्रकान्ती पिता स्वामीदीन कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/2/5 | 0.0240 |
| 155 | मल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/3/1 | 0.0590 |
| 156 | लल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/3/2 | 0.0590 |
| 157 | छोटेराल पिता रामसहाय काछी पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी | 1287/1837/4 | 0.0270 |
| 158 | पंचमलाल पिता झुरी जाति चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा0 देह भूमिस्वामी | 1231/1/4 | 0.0600 |
| 159 | मायादेवी पत्नी भीमसेन जाति काछी साकिन देह भूमि स्वामी | 1538/1/2/1 | 0.0370 |
| 160 | श्रीमती कल्ली पत्नी सूरजदीन साहँ साकिन देह भूमि स्वामी | 1538/2/2 | 0.0570 |
| 161 | रामरक्षक पिता लखनलाल कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी | 1284/1/1 | 0.0150 |
| 162 | लखनलाल रामदास बेटी बाई पिता सियाशरण कुशवाहा | 1284/1/2 | |
| 163 | छवीलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी | 1284/2/1 | |
| 164 | शिवलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी | 1284/2/2 | |
| | योग | | 10.7360 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-1028-23-24-भू-अर्जन-2025

विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2025

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम-कोठा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-कोठा

जिला-विदिशा

तहसील-कुरवाई

| स.क्र. | भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा क. | क्षेत्रफल कुल रकबा (हे.मै) | अर्जित रकबा (हे.मै) | | | भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां |
|--------|--|---------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------|-------|-----------------------------|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 129/3/1 | 1.436 | 0.065 | — | — | निरंक |
| 2 | धर्मेन्द्रसिंह पुत्र भूरतसिंह जाति दांगी, पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 129/4/1 | 0.886 | 0.052 | — | — | निरंक |
| 3 | महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 131/1/1 | 0.754 | 0.060 | — | — | निरंक |
| 4 | महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 132/1/1 | 0.045 | 0.023 | — | — | निरंक |
| 5 | प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 133/2 | 0.375 | 0.060 | — | — | निरंक |
| 6 | गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 134/1 | 0.118 | 0.022 | — | — | निरंक |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|--------|-------|-------|---|---|-------|
| 7 | प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 135/2 | 0.305 | 0.065 | - | - | निरंक |
| 8 | सुरेश बाबू पुत्र बेनीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 141/1 | 1.296 | 0.003 | - | - | निरंक |
| 9 | गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 142/1 | 0.084 | 0.015 | - | - | निरंक |
| योग | | | 9 किता | 5.299 | 0.365 | | | |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन डिकार्ड जल संसाधन विभाग, गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव